

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
उत्तराखण्ड, देहरादून

सं.: 1/सा.प्र./नीलामी/2018-19/
दिनांक: .07.2018

विषय: निष्प्रयोज्य सामग्री मेजो की नीलामी हेतु निविदा आमंत्रण।

निष्प्रयोज्य सामग्री मेजो की नीलामी हेतु मुहरबन्द निविदा "जहाँ है जैसा है" के आधार पर आमंत्रित की जाती हैं। उपरोक्त सामग्री कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, देहरादून में निरीक्षण हेतु रखी गई है।

मुहरबन्द निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि	31.07.2018 को सायं 4.30 बजे
सामग्री निरीक्षण तिथि एवं समय	कार्यालय दिवस में दिनांक 30.07.2018 सायं 3:30 बजे से 4:30 बजे तक
निविदा सूचना एवं नियम और शर्तें इस कार्यालय के वेबसाइट पर उपलब्ध है।	www.agau.cag.gov.in
निविदा खोलने की तिथि एवं समय	01.08.2018 को सायं 3:30

General Terms & Conditions:

Bidders may inspect the items on the stipulated date & time:

1. The items shall be sold to the highest bidder. The bids are invited for the lot i.e. all the items contained in the list of old condemned, obsolete office equipment and furniture items as a whole and no bid would be accepted for any part of the same.
2. An amount of 30% is to be deposited by Demand Draft in favour of “Pay & Accounts Officer, Office of the Accountant General (A&E) Uttarakhand, “Mahalekhakar Bhawan” Kaulagarh, Dehradun” on the finalization date of bid (EMD).
3. The successful bidder has to make full (Remaining Amount 70%) payment in the form of Demand Draft in favour of “Pay & Accounts Officer, Office of the Accountant General (A&E) Uttarakhand, “Mahalekhakar Bhawan” Kaulagarh, Dehradun” within three days after confirmation, failing which the offer will be cancelled and the EMD shall stand forfeited.
4. No items once disposed to the successful bidder shall be taken back by this office on any condition whatsoever.
5. The successful bidder will be required to lift all the items from the disposal site within three days after the payment of the balance amount. On failure to do so this office shall have the right to forfeit the entire amount of the bidder and dispose the items to alternate bidder. The successful bidder cannot dispose the items to alternate bidder. The successful bidder, at their own cost, will also be required to make their own arrangement of transport, labor etc. for lifting the disposed items.
6. Quotation letter in sealed envelope marked “TENDER DISPOSAL OF AUCTION OF OLD CONDEMNED, OBSOLETE SHOULD BE ADDRESSED TO SR. DAG/ADMN. OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENEARL (AUDIT) UTTARAKHAND “MAHALEKHAKAR BHAWAN” KAULAGARH, DEHRADUN.

7. The quotation must be submitted on or before the due date and time otherwise it is liable to be rejected. Tenders received after the due date and time due to any reason whatsoever shall not be considered.
8. The financial bid should be given in both in figures and words. Any overwriting or erasing in the figures shall not be considered for acceptance of the rates offered by the tenderer.
9. Office reserves the right to accept or reject any/ all quotations without assigning any reasons whatsoever.
10. Each page of tender document should be signed by the bidders (s).

---Sd---
Sr. DAG /Admn.
O/o the PAG (Audit)
Uttarakhand, Dehradun